



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 598) 10 पौष 1930 (श०)  
पटना, बुधवार 31 दिसम्बर 2008

सं० 3ए-वे०पु०-01/08-11151वि.(2)

वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2008

विषय : वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3ए-वे०पु०-01/08-10932/वि(2), दिनांक 24 दिसम्बर, 08 में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त संकल्प में अंशतः संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया जाता है कि -

- (1) विषय में “राज्य कर्मियों” के स्थान पर “राज्य सरकार के कर्मियों” पढ़ा जाए।
- (2) यह संकल्प श्रेष्ठी कमीशन की अनुशंसाओं से आच्छादित न्यायिक सेवा के सदस्यों, उच्च न्यायालय, पटना/व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होगा।
- (3) बिहार विधान सभा/परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त बकाया वेतन का औपबंधिक भुगतान/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से किया जा सकेगा।
- (4) इसके लिए अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक हजार मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरुनीश चावला,

अपर वित्त आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 598-571+1000-डी०टी०पी०।